

**ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे व्यापक जॉब बोर्ड - वर्क बीसी के जॉब बोर्ड में आपका स्वागत है**

**क्या आपको नौकरी की तलाश है?** बी.सी. में सभी जगहों की जॉब पोस्टिंग्स वाले हमारे डेटाबेस में खोज करें।

**क्या आप प्रतिभाएं ढूंढ रहे हैं?** अपने बिजनेस में मदद के लिए सही प्रतिभा ढूंढने हेतु नौकरी पोस्ट करें, बिल्कुल मुफ्त।

यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो निम्नलिखित कार्य करने के लिए वर्क बीसी के जॉब बोर्ड में एक खाता रजिस्टर करें:

- सीधे नियोजकों को नौकरी के लिए आवेदन दें
- को-ऑप शिक्षा पदों के लिए आवेदन दें
- नियोजकों की प्रोफाइल और पोस्टिंग्स ब्राउज़ करें
- जब नए जॉब पोस्ट किए जाते हैं तो जॉब अलर्ट प्राप्त करें
- स्थान, वेतन रेंज, उद्योग और व्यवसाय के अनुसार खोज करें
- जॉब प्रकार चुनें - पूर्णकालीन अथवा अंशकालीन कार्य, अप्रेंटिसशिप, और को-ऑप
- अपने पसंदीदा जॉब और खोज सेव करें और शेयर करें
- अप्रेंटिसशिप जॉब मैच का प्रयोग करके, अपने ट्रेड प्रोग्राम का WorkBC.ca पर पोस्ट किए गए अप्रेंटिसशिप अवसरों से मिलान करें

यदि आप एक **नियोजक** हैं, तो निम्नलिखित के लिए वर्क बीसी के जॉब बोर्ड में रजिस्टर करें:

- को-ऑप पदों सहित मुफ्त, प्रबंधित करने में आसान जॉब पोस्टिंग पाएं
- अपना नियोजक प्रकार, स्थान और उद्योग इंगित करके संभावित कर्मचारियों को आकर्षित करें
- नैशनल जॉब बैंक में ऑटोमैटिक पोस्टिंग प्राप्त करें
- तेज और जानकारी से युक्त सहायता सेवाएं प्राप्त करें
- छात्रों के लिए को-ऑप जॉब, विशिष्ट ट्रेड प्रोग्राम और प्रमाणन स्तर पोस्ट करें

### **व्यवसायगत कोडों के बारे में**

राष्ट्रीय व्यवसायगत वर्गीकरण [\[National Occupational Classification \(NOC\)\]](#) 40,000 से अधिक नौकरी पदवियों को 500 व्यवसायगत समूह विवरणों में व्यवस्थित करता है। यह प्रत्येक व्यवसाय के मुख्य दायित्व, कौशल और शैक्षिक अपेक्षाएं उपलब्ध कराता है


एक नौकरी चाहने वाले के तौर पर, अपने व्यवसाय का कोड जानने तथा NOC कोड सूची देखने से आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आप किसी नौकरी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

व्यवसायों को निम्नलिखित तरीके से संख्याएं दी जाती हैं:

- वरिष्ठ प्रबंधन, 00
- प्रबंधन, 0
- बिजनेस, वित्त और प्रशासन, 1

- नैचरल एंड एप्लाइड साइंसेज तथा संबंधित व्यवसाय, 2
- स्वास्थ्य, 3
- शिक्षा, कानूनी और सामाजिक, सामुदायिक और सरकारी सेवा, 4
- कला, संस्कृति, मनोरंजन और खेल, 5
- बिक्री और सेवा, 6
- ट्रेड्स, परिवहन और इक्विपमेंट ऑपरेटर तथा संबंधित व्यवसाय, 7
- प्राकृतिक संसाधन, कृषि और संबंधित उत्पादन, 8
- विनिर्माण और यूटिलिटीज, 9

इन व्यवसायों में प्रत्येक के भीतर, उप-श्रेणियां हैं जिन्हें प्रमुख समूह कहते हैं, जो आगे और विभाजित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, एक कार्पेन्टर का NOC कोड 7271 है और उसे इस प्रकार विभाजित किया गया है:



NOC के बारे में [कैनेडा सरकार की वेबसाइट](#) पर अधिक जानकारी प्राप्त करें।